

प्रेस नोट जनपद मेरठ दिनांक 12.01.2021
प्रेस नोट थाना मवाना जनपद मेरठ दिनांक 12/01/2021



थाना मवाना पुलिस द्वारा शार्प शूटर हारुन उर्फ कल्लू एवं उसके साथी रिजवान उर्फ भूरा को मु0अ0सं0-568/20 धारा 307/120 बी भादवि की घटना में प्रयुक्त तमंचे व कारतूस सहित किया गिरफ्तार ।

अवगत कराना है कि दिनांक 11/01/2021 को श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय (ग्रामीण) व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय मवाना के कुशल नेतृत्व व दिशा निर्देशन में थाना स्थानीय पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर दिनांक 29/12/2020 को ग्राम भैंसा में युवक सतीश कुमार पुत्र धीर सिंह निवासी ग्राम भैंसा थाना मवाना जनपद मेरठ को गोली मारकर गम्भीर रूप से घायल करने की घटना का सफल अनावरण करते हुये शार्प शूटर हारुन उर्फ कल्लू पुत्र अफलातून निवासी भैंसा रोड मस्जिद के पीछे वाली गली कस्बा व थाना मवाना मेरठ को उसके साथी भूरा उर्फ रिजवान पुत्र इनाम खां निवासी मौ0 मुन्नालाल जाट कालिज के पीछे कस्बा व थाना मवाना मेरठ के साथ फलावदा चौराहे के पास गिरफ्तार कर लिया गया तथा अभियुक्त हारुन उर्फ कल्लू से घटना मे प्रयुक्त एक अदद तमंचा मय 02 जिन्दा कारतूस व 01 खोखा कारतूस बरामद कर लिया गया । घटना में शामिल अभियुक्तगण के दो अन्य साथी सोनू पुत्र भगवान सहाय निवासी जाट कॉलेज के पीछे मौहल्ला मुन्नालाल थाना मवाना जिला मेरठ व सुशील पुत्र धीर सिंह निवासी ग्राम भैंसा थाना मवाना जिला मेरठ को पूर्व मे ही दिनांक 02/01/2021 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

- 1- भूरा उर्फ रिजवान पुत्र इनाम निवासी मौ0 मुन्नालाल कस्बा व थाना मवाना जनपद मेरठ उम्र करीब 27 वर्ष
- 2- हारुन उर्फ कल्लू पुत्र अफलातून निवासी भैंसा रोड मस्जिद के पीछे वाली गली कस्बा व थाना मवाना जनपद मेरठ उम्र करीब 29 वर्ष

बरामदगी का विवरण:-

- 1- एक अदद तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस व एक खोखा कारतूस 315 बोर

--:प्रेस-विज्ञप्ति:--



अपर पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिदेशक के जी0एस0ओ0, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या: डीजी-12, यूथ क्लब 2020 दिनांक: जनवरी 07, 2021 एवं उस पर पृष्ठांकित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ के पृष्ठांकन आदेश दिनांकित: 07-01-2021 के साथ संलग्न अध्यक्षा, वामा सारथी, उत्तर प्रदेश पुलिस फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन के अनुपालन में आज दिनांक: 12-01-2021 को **राष्ट्रीय युवा दिवस** के अवसर पर पुलिस लाइन्स में साइकिल रैली का आयोजन किया गया, यूथ क्लब का गठन किया गया, जिसमें पुलिस लाइन्स में आवासित पुलिस परिवार के 15 वर्ष से 25 वर्ष तक के युवा सम्मिलित हुए एवं स्वामी विवेकानन्द के जीवन पर प्रकाश डालते हुए साइकिल रैली के प्रतिभागियों को श्री सूरज राय, सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी, लाइन्स, मेरठ द्वारा शपथ दिलायी गयी। यूथ क्लब द्वारा परिसर में आवासों, पार्कों की साफ-सफाई, आवासों की दीवारों पर वाल पेन्टिंग, परिसर के अन्दर साइकिल का प्रयोग एवं पर्सनल हाइजीन के प्रति जागरूक किया गया, वामा सारथी पुलिस नर्सरी की देख-रेख का दायित्व सौंपा गया। उक्त अवसर पर प्रभारी, प्रतिसार निरीक्षक, पुलिस लाइन्स श्री तोफिक खॉन एवं लाइन मद/शाखाओं में नियुक्त प्रभारीगण एवं अधीनस्थ कर्म0 उपस्थित रहे।

थाना देहली गेट पुलिस द्वारा कोटला मंडी से अभि0गण 1. सानू पुत्र हनीफ नि0 धोबी वाली गली थाना देहलीगेट मेरठ 2. शुऐब पुत्र सरताज नि0 सराय लालदास थाना देहलीगेट मेरठ 3. अमन उर्फ समीर पुत्र जफर नि0 सराय लालदास थाना देहलीगेट मेरठ को वादी की चाय की दुकान का ताला तोडकर काउन्टर से 01 लाख 07 हजार रुपये चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार कर अभियुक्तगणों के कब्जे से चोरी किये गये रुपये में से 4800 रुपये बरामद किये गये। थाना देहली गेट पुलिस द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गई।

थाना परतापुर पुलिस द्वारा विगबाईड होटल के पीछे कुंडा वाले रास्ते की तरफ से अभियुक्त पंकज पुत्र पप्पू नि0 शंकर नगर फेस-1 थाना परतापुर मेरठ को गिरफ्तार कर अभियुक्त के कब्जे से 16 पब्बा देशी शराब बरामद किया गया। थाना परतापुर पर अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गई।

थाना रेलवे रोड पुलिस द्वारा चंडी देवी मन्दिर के पास रामताल वाटिका के पास से अभियुक्त 1. मौहम्मद शुऐब पुत्र मौहम्मद सलीम नि0 गफफार टैन्ट वाली गली मकबरा अब्बू थाना रेलवेरोड मेरठ 2. राजा पुत्र इकबाल नि0 84 गंजबाजार थाना सदरबाजार मेरठ 3. दिनेश कुमार गिरी पुत्र भगवत गिरी नि0 म0नं0 320 ग्राम भैसी थाना खतौली जनपद मु0नगर को सट्टे की खाईबाडी करते समय गिरफ्तार कर अभियुक्तगणों के कब्जे से फड से 52 पत्ता तास व 2950 रुपये नगद बरामद किये गये । थाना रेलवे रोड पर अभियुक्तगणों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गई ।

थाना जानी पुलिस द्वारा कुसैडी पुलिया से अभियुक्त जय प्रकाश पुत्र रामा नि0 ग्राम कुसैडी थाना जानी मेरठ को गिरफ्तार कर अभियुक्त के कब्जे से 25 पब्बा देशी शराब मिस इंडिया मार्का नाजायज बरामद किया गया । थाना जानी पुलिस द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गई ।

थाना रोहटा पुलिस द्वारा जंगल ग्राम पूठखास से अभियुक्त रवेन्द्र गिरी पुत्र सुरेश गिरी नि0 ग्राम पूठखास थाना रोहटा मेरठ को वादी श्री विनोद गिरी पुत्र रमेश गिरी नि0 ग्राम रिठाली थाना सरूरपुर मेरठ के पुत्र वासू उम्र करीब 08 वर्ष की गला दबाकर हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया । थाना रोहटा पुलिस द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की गई ।

थाना बहसूमा पुलिस द्वारा तालाब के पास ग्राम करीमपुर से अभियुक्तगणों 1. राहुल पुत्र बबली नि0 एफडी-99 फेस-1 पल्लवपुरम थाना पल्लवपुरम मेरठ 2. संदीप कुमार पुत्र धर्म सिंह नि0 एफडी-103 फेस-1 पल्लवपुरम थाना पल्लवपुरम मेरठ 3. बबलू पुत्र गजे सिंह नि0 ग्राम रानी नंगला थाना हस्तिनापुर मेरठ को गिरफ्तार कर अभियुक्तगणों के कब्जे से 144 बोतल शराब रेस-7 हरियाणा मार्का, 24 बोतल शराब क्रेजी रोमियों हरियाणा मार्का, 350 पब्बा शराब जीआर-8 टाईम्स हरियाणा मार्का ग्राम करीमपुर में तालाब के पास वाहन छोटा हाथी नं0 यूपी 15 ईटी 8029 से उतारते समय बरामद वाहन व शराब सहित गिरफ्तार किया गया । थाना बहसूमा पुलिस द्वारा अभियुक्तगणों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गई ।